



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 पौष 1937 (श०)  
(सं० पटना 18) पटना, बृहस्पतिवार, 7 जनवरी 2016

---

गृह (विशेष) विभाग

vf/kl ipuk, a  
6 tuojh 2016

एस०ओ० 01 दिनांक 7 जनवरी 2016—चूँकि गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या—बी०/सा०वि०व्य०(वैशाली)—01/2015/252/वि०स०को०, पटना, दिनांक 18.11.2015 द्वारा वैशाली जिला के लालगंज थानान्तर्गत ग्राम—अगरपुर में दिनांक 17.11.2015 को हुई पिकअप वैन चालक द्वारा एक घर में वाहन से हुई दुर्घटना के पश्चात् घटित विधि—व्यवस्था की समस्या एवं पुनः दिनांक 18.11.2015 को इसी दुर्घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चालक एवं कतिपय अन्य लोगों के घरों में की गई आगजनी की घटना, तत्पश्चात् उत्पन्न हुई गंभीर विधि—व्यवस्था की समस्या जिसमें बेलसर ओ०पी० प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मी घायल हुए तथा अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फायरिंग की गई, की जांच के लिए बिहार के राज्यपाल ने कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट—1952 (सं०—60/1952) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच आयोग गठित किया है। आयोग की अवधि अधिसूचना निर्गत की तिथि (दिनांक 18.11.2015) से एक महीने के लिए 17.12.2015 तक निर्धारित की गई थी। इस जांच आयोग के अध्यक्ष, श्री प्रेम सिंह मीणा, भा०प्र०से०, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना तथा सदस्य श्री सुनील कुमार, भा०पु०से०, पुलिस महानिरीक्षक (बजट एवं अपील), बिहार, पटना हैं।

2. और चूँकि बिहार राज्यपाल को समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जांच संबंधी कार्य पूरा करने के लिए दिनांक 18.12.2015 से 17.01.2016 तक के लिए अवधि विस्तार की आवश्यकता है।

3. अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा—3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल उपरोक्त जाँच आयोग की अवधि को दिनांक 18.12.2015 से 17.01.2016 तक विस्तारित करते हैं।

[सं० बी०/सा०वि०व्य०(वैशाली)—01/2015—67सी०]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

जितेन्द्र कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

6 tuojh 2016

एस०ओ० 02, एस०ओ० 01 दिनांक 7 जनवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

[सं० बी०/सा०वि०व्य०(वैशाली)-01/2015-67सी०]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जितेन्द्र कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

The 6<sup>th</sup> January 2016

S.O. No.01 Dated 7<sup>th</sup> January 2015—Whereas vide Home (Special) Department Notification No.-B/Gen.Law&Ord.(Vaishali)-01/2015 Dated 18.11.2015 the Governor of Bihar was pleased to constitute an Enquiry Commission under the Commission of Enquiry Act (No. 60, 1952) for inquiring into the incidents that took place as a consequence of the accident in a house involving a pick up van on 17.11.2015 in the village Agarpur under Police Station Lalganj of Vaishali District, and subsequently on 18.11.2015 after arson by local villagers involving the house of the pick up van driver and other leading to serious law & order problem and stone pelting, in which serious injuries were caused to the O.P. In-charge of Belsar and other police men, resulting in police firing. The term of the commission was fixed for one month from the date of notification i.e. 18.11.2015 to 17.12.2015. Sri Prem Singh Meena, IAS, Inspector General, Jail and Correctional Services, Bihar is The Chairman of this Enquiry Commission and Sri Sunil Kumar, IPS, Inspector General (Budget and Appeal), Bihar is member.

2. Further, whereas, the Governor of Bihar is pleased to decide that in order to complete the enquiry, the Commission requires to be given further extension of tenure from 18.12.2015 to 17.01.2016.

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by section-3 of Act no. 60 of 1952, the Governor of Bihar is pleased to extend the period of the Commission of enquiry from 18.12.2015 to 17.01.2016.

[No. B/Gen.Law&amp;Ord.(Vaishali)-01/2015-67c.]

By order of the Governor of Bihar,

Jitendra Kumar,

*Special Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 18-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>